



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2010/पौष 25, 1931

No. 27]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2010/PAUSA 25, 1931

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2010

सा.का.नि. 33(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, (कम्प्यूटर एवं पद्धति प्रभाग), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1988 जहाँ तक उनका संबंध उप-निरीक्षक पद से है, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, (कम्प्यूटर और पद्धति प्रभाग) समूह 'क' एवं समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 1988 जहाँ तक उनका संबंध निरीक्षक पद से है, में उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किये जाने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, कम्प्यूटर और पद्धति प्रभाग में ऑकड़ा प्रक्रमण सहायक श्रेणी 'क' एवं श्रेणी 'ख' के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, कम्प्यूटर और पद्धति प्रभाग, ऑकड़ा प्रक्रमण सहायक श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन यह अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए लागू करना अपेक्षित है।

255

अनुसूची

प. का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन / वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. आंकड़ा प्रक्रमण सहायक, श्रेणी 'क'	49* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसूचित	वेतन बैंड - 2 रु. 9300/- 34800/- + रु. 4200/- ग्रेड वेतन के साथ	चयन	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं। केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 5 वर्ष तक की जा सकती है। टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू, कश्मीर, राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशत	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति आमेलन के द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
8	9	10	11	12	13	14
<p>आवश्यक :</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशनस या कम्प्यूटर विज्ञान में निष्णात डिग्री</p> <p>या</p> <p>कम्प्यूटर इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में बी.ई./बी.टेक</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रॉनिक्स या इलैक्ट्रॉनिक्स एवं संचार में बी.ई./बी.टेक के साथ में इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कार्य का 2 वर्षों का अनुभव जिसमें वास्तविक प्रोग्रामिंग का अनुभव भी सम्मिलित हो।</p>	लागू नहीं।	सीधे भर्ती के लिए दो वर्ष	सीधे भर्ती	लागू नहीं	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति में पुष्टिकरण के लिए निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- 1. महा निरीक्षक/ संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो - अध्यक्ष 2. निदेशक / उप सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य 3. उप निदेशक / सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं होगा।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीक्षा अवधि कोई हो	की यदि	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन के द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
8	9	10	11	12	13	14	
या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशनस या कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातक की डिग्री के साथ में इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कार्य का 2 वर्षों का अनुभव जिसमें वास्तविक प्रोग्रामिंग का अनुभव भी सम्मिलित हो।							
या डी.ओ.ई.ए.सी.सी. (DOEACC) प्रोग्राम के अधीन 'क' स्तर का डिप्लोमा।							
या							

विश्वविद्यालय प्रोग्राम के अधीन प्रस्तावित कम्प्यूटर एप्लीकेशनस या कम्प्यूटर प्रणाली एवं प्रबंधन या सूचना प्रणाली एवं एप्लीकेशन या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नाकोत्तर डिप्लोमा या राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर एप्लीकेशनस या कम्प्यूटर प्रणाली एवं प्रबंधन या सूचना प्रणाली एवं एप्लीकेशन या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी में पोस्ट पोलिटोकिनक डिप्लोमा ।						
--	--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आगु और शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिष्कार की अवधि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन के द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
8	9	10	11	12	13	14
या विश्वविद्यालय प्रोग्राम के अधीन प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या तकनीकी राज्य शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार में पोस्ट पॉलिटेक्नीक डिप्लोमा।						

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन के द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
8	9	10	11	12	13	14
<p>टिप्पण 1: यदि अभ्यर्थियों को विशेष अर्हता प्राप्त है तो लिखित में कारण देते हुए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक से अर्हताओं में छूट दे सकते हैं।</p> <p>टिप्पण 2: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के सन्दर्भ में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक के आधार पर लिखित कारण देते हुए शैक्षिक अर्हताओं में छूट दे सकते हैं।</p>						

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन / वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुभवेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
2. आँकड़ा प्रक्रमण सहायक, श्रेणी 'ख'	39* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ख अराजपत्रित, अननुसूचित	वेतन बैंड - 2 रु. 9300/- 34800/- रु. + 4600/- ग्रेड वेतन के साथ	चयन	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं। केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 5 वर्ष तक की जा सकती है। टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचलप्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन के द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
8	9	10	11	12	13	14
आवश्यक : (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशनस या कम्प्यूटर विज्ञान में निष्णात डिग्री या एम.टेक (कम्प्यूटर एप्लीकेशनस में विशेषज्ञता के साथ) या सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर इंजीनियरिंग या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर तकनीकी बी.ई./बी.टेक।	लागू नहीं।	सीधे भर्ती के लिए दो वर्ष	(1) 60% प्रोन्नति के द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति के द्वारा दोनों के न होने पर सीधे भर्ती द्वारा (ii) 40% प्रतिनियुक्ति के द्वारा, जिसके न होने पर सीधे भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति आंकड़ा प्रक्रमण सहायक, श्रेणी "क" जिनकी श्रेणी वेतन रु. 4200 हो साथ में इसी श्रेणी में पांच वर्षों की नियमित सेवा हो। टिप्पण :- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हकपात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब तक कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हकपात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हकपात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता	समूह 'ख' की विभागीय प्रोन्नति समिति में पदोन्नति एवं पुष्टिकरण के लिए निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- 1. महा निरीक्षक./ संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो-अध्यक्ष 2. निदेशक/उप सचिव, गृह मंत्रालय-सदस्य 3. उप निदेशक/सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, सदस्य।	सीधे भर्ती और प्रतिनियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना होगा।

सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 :-

प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना हेतु अधिकारी द्वारा 1.12.06 से पहले नियमित आधार पर प्रदत्त सेवा/तारीख जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई या आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए गए अनुसार ग्रेड वेतन/वेतनमान में प्रदत्त सेवा माना जाएगा।

प्रतिनियुक्ति

केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों (क) (1) मूल कांडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हो।
या

(ii) पे बैंड-2, रु. 9300-34800 में + रु. 4200 के ग्रेड पे के साथ नियुक्ति के पश्चात उसी ग्रेड में नियमित आधार पर 5 वर्षों की सेवा या मूल कांडर या विभाग में समकक्ष ; एवं
(ख) स्तंभ 8 के अंतर्गत सीधे भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव रखता हो।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा को अवधि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन के द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
8	9	10	11	12	13	14
या (ख) (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रॉनिक्स या इलैक्ट्रॉनिक्स एवं संचार में बी.ई.बी.टेक। (ii) इलैक्ट्रॉनिक आंकड़ा प्रसंस्करण कार्य में 2 वर्षों का अनुभव जिसमें वास्तविक प्रोग्रामिंग भी सम्मिलित है। या (ग) (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशनस या कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या इलैक्ट्रॉनिक्स में डिग्री।				टिप्पणी 1:-प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 01.01.2006 से पहले अधिकारी द्वारा नियमित आधार प्रदत्त सेवातारीख जिससे 6ठें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है/ आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू अनुसार ग्रेड पे/वेतनमान में प्रदत्त सेवा को माना जाएगा सिवाय जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमान को एक ग्रेड पे में समान ग्रेड वेतन/वेतनमान में सम्मिलित किया गया हो और जहाँ यह लाभ उन पदों को दिया गया हो जहाँ उसी ग्रेड पे/वेतनमान को बिना किसी		

(ii) इलैक्ट्रॉनिक ऑकड़ा प्रसंस्करण कार्य में 2 वर्षों का अनुभव जिसमें वास्तविक प्रोग्रामिंग का अनुभव भी सम्मिलित है। या		उन्नयन के सामान्य ग्रेड में प्रतिस्थापन किया गया हो।		
(घ) (1) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. प्रोग्राम के अधीन 'ए' स्तर का डिप्लोमा या विश्वविद्यालय प्रोग्राम के अधीन प्रस्तावित कम्प्यूटर एप्लीकेशनस या कम्प्यूटर प्रणाली एवं प्रबंधन या सूचना प्रणाली एवं एप्लीकेशन या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर तकनीकी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलैक्ट्रॉनिक्स या इलैक्ट्रॉनिक्स एवं संचार स्नाकोत्तर डिप्लोमा या		डिप्लोमा 2 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति के द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि / संविदा की अल्प अवधि सहित जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (संविदा की अल्प अवधि सहित) साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		
राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर एप्लीकेशनस या कम्प्यूटर प्रणाली एवं प्रबंधन या सूचना प्रणाली एवं एप्लीकेशन या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलैक्ट्रॉनिक्स एवं संचार में पोस्ट पोलिटेक्निक डिप्लोमा।		अधिक नहीं होगी।)		

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लायू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन के द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13	14
<p>(ii) इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग कार्य में 3 वर्षों का अनुभव हो जिसमें वास्तविक प्रोग्रामिंग का अनुभव भी सम्मिलित हो।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती हैं। जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की</p>						

यह राय है कि उनके लिए आरक्षित स्थितियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।						
---	--	--	--	--	--	--

[फा. सं. (035)33/1/2007-प्रशा. II/एन.सी.आर.बी.]

निर्मलजीत सिंह कलसी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2010

G.S.R. 33(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs, National Crime Records Bureau (Computer and Systems Divisions) Group 'C' Posts Recruitment Rules, 1988 in so far as it relates to the post of Sub-Inspector and the Ministry of Home Affairs, National Crime Records Bureau (Computer and Systems Divisions) Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment Rules, 1988 in so far as it relates to the post of Inspector, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Data Processing Assistant Grade 'A' and Grade 'B' in the Ministry of Home Affairs, National Crime Records Bureau, Computer and System Division, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Crime Records Bureau, Computer and Systems Division, Data Processing Assistant Grade 'A' and Grade 'B' (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Posts, Classification and Scale of Pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the above said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Powers to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay / Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
1. Data Processing Assistant Grade 'A'	2 49* (2010) *subject to variation dependent on work load	3 General Central Service, 'B' Group, Non - Gazetted, Non - Ministerial	4 PB - 2, Rs. 9300 - 34800 plus Grade Pay of Rs.4200	5 Not applicable	6 Not applicable	7 Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub - Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13	14
Essential: Master's Degree in Computer Applications or Computer Science or BE / B.Tech in Information Technology or Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology from a recognised University or Institute OR BE / B.Tech in Electronics or Electronics and Communication from a recognised University or Institute with two years' experience in Electronic Data Processing work including experience of actual programming OR Bachelor's Degree in Computer Applications or Computer Science or Information Technology or Electronics from a recognised University with two	Not applicable	Two years for direct recruits	Direct Recruitment Note: Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service in the grade rendered after	Not applicable	Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:- 1. Inspector General / Joint Director, National Crime Records Bureau - Chairman 2. Director / Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member 3. Deputy Director / Assistant Director, National Crime	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
<p align="center">8</p> <p>years' experience in Electronic Data Processing work including experience of actual programming</p> <p align="center">OR</p> <p>"A" level Diploma under DOEACC Programme or Post Graduate Diploma in Computer Applications or Computer System and Management or Information System and Application or Computer Science or Computer Technology or Information Technology offered under University Programme or Post Polytechnic Diploma in Computer Applications or Computer System and Management or Information System and Application or Computer Science or Computer Technology or Information Technology awarded by the State Council of Technical Education.</p> <p align="center">OR</p> <p>Post Graduate Diploma in Electronics or Electronics and Communication offered under University Programme or Post Polytechnic Diploma in Electronics or Electronics and Communication awarded by the State Council of Technical Education</p>	9	10	11	12	13	14
			<p>appointment thereto on regular basis in posts in PB-1, Rs. 5200 - 20200 plus Grade Pay Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8.</p>		Records Bureau - Member	

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
<p style="text-align: center;">8</p> <p>with two years' experience in Electronic Data Processing work including experience of actual programming</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	9	10	11	12	13	14

Name of post	Number of post	Classification	Pay and Grade Pay / Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
2. Data Processing Assistant Grade 'B'	39* (2010) *subject to variation dependent on work load	General Central Services, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB - 2, Rs. 9300 - 34800 plus Grade Pay of Rs. 4600	Selection	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangl Sub - Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or absorption to be made	If Departmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13	14
Essential: (A) Master's Degree in Computer Applications or Computer Science or M.Tech (with specialisation in Computer Applications) or BE / B.Tech in Information Technology or Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology from a recognised University or Institute OR (B) (i) BE / B.Tech in Electronics or Electronics and Communication from a recognised University or Institute (ii) Two years' experience in Electronic Data Processing work including experience of actual Programming. OR (C) (i) Bachelor's Degree in Computer	Not applicable	Two years for direct recruits	(i) 60% by promotion which failing by deputation failing both by direct recruitment. (ii) 40% by deputation failing by direct recruitment	Promotion: Data Processing Assistant Grade 'A' in the Pay Band-2, 9300 - 34800 plus Grade Pay of Rs.4200 with five years' regular service in the grade Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or	Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion and confirmation:- 1. Inspector General / Joint Director, National Crime Records Bureau - Chairman 2. Director / Deputy Secretary,	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is consulted in making recruitment
<p align="center">8</p> <p>Applications or Computer Science or Information Technology or Electronics from a recognised University.</p> <p>(ii) Two years' experience in Electronic Data Processing work including experience of actual Programming.</p> <p align="center">OR</p> <p>(D) (i) "A" level Diploma under DOEACC Programme or Post Graduate Diploma in Computer Applications or Computer System and Management or Information System and Application or Computer Science or Computer Technology or Information Technology or Electronics or Electronics and Communication offered under University Programme or Post Polytechnic Diploma in Computer Applications or Computer System and Management or Information System and Application or Computer Science or Computer Technology or Information</p>	<p align="center">9</p>	<p align="center">10</p>	<p align="center">11</p>	<p align="center">12</p> <p>eligibility service.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 / the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission.</p> <p>Deputation : Officers of the Central Government or State Governments or Union territories;</p>	<p align="center">13</p> <p>Ministry of Home Affairs - Member 3. Deputy Director / Assistant Director, National Crime Records Bureau - Member</p>	<p align="center">14</p>

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13	14
<p>Technology or Electronics or Electronics and Communication awarded by the State Council of Technical Education.</p> <p>(ii) Three years' experience of Electronic Data Processing work including experience of actual Programming.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the</p>				<p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the Pay Band-2, Rs.9300-34800 plus grade Pay of Rs.4200 or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8</p> <p>Note 1: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised</p>		

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If Departmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13	14
Union Public Service Commission are of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.				pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/ pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay/ pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that Grade Pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. Note 2: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall		

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment by whether direct recruitment or promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If Departmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13	14
				not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years). The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

[F.No.(035)33/1/2007-Ad.II/(NCRB)]

NIRMALJEET SINGH KALSI, Jr. Secy.